



+

रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा
कक्षा-छ /विषय-हिंदी /२०१७-१८
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

प्र०. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

आज से करीब डेढ़ हजार साल पहले चीन में बारूद का आविष्कार हुआ। फिर ईसा की ग्यारहवीं सदी में चीनियों ने राकेट बनाए। लगभग उसी समय भारत को भी बारूद की जानकारी मिली। भारत को यह जानकारी या तो चीनी कीमियागरों से मिली या भारतीय बन्दरगाहों में पहुंचने वाले चीनी व्यापारियों के ज़रिए। आज भी आतिशबाजी के पटाखों का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण भारत में ही होता है। राकेटों का भी ज़्यादा इस्तेमाल दक्षिण भारत के युद्धों में ही हुआ है। राकेटों के लिए लोहे के खोलों का इस्तेमाल संभवतः भारत की ही खोज है।

1) बारूद का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश ने किया था?

(क) भारत (ख) चीन (ग) रूस (घ) जापान

2) भारत को बारूद की जानकारी कब मिली?

(क) दसवीं शताब्दी में (ख) तेरहवीं शताब्दी में (ग) बारहवीं शताब्दी में (घ) ग्यारहवीं शताब्दी में

3) भारतीयों को बारूद की जानकारी कैसे मिली?

(क) चीनी मज़दूरों से (ख) चीनी व्यापारियों से (ग) चीनी वैज्ञानिकों से (घ) क और ख दोनों

4) भारत में आतिशबाजी के पटाखों का सर्वाधिक प्रयोग कहां होता है?

(क) पूर्वोत्तर भारत में (ख) दक्षिणी भारत में (ग) उत्तरी भारत में (घ) पूर्वी भारत में

5) राकेट के लिए लोहे के खोलों की खोज की संभावना किस देश के लिए प्रकट की जाती है?

(क) भारत (ख) चीन (ग) रूस (घ) मलेशिया

6) उपसर्ग मूल रूप से ----- होते हैं।

(क) शब्द (ख) शब्दांश (ग) पद्यांश (घ) वाक्य

7) प्रत्यय शब्दों के ----- लगकर नये शब्द का निर्माण करते हैं।

(क) पहले (ख) बीच में (ग) साथ (घ) बाद में

8) "ज्ञान" में उपसर्ग लगेगा-

(क) प्र (ख) अति (ग) बे (घ) अ

(9) "बनावट" में मूल शब्द और प्रत्यय हैं-

(क) बना+आवट (ख) बन+ आवट (ग) ब+ आवट (घ) बाना+ आवट

(10) "अभिमानी " में उपसर्ग- प्रत्यय हैं-

(क) अ, ई (ख) अभि, ई (ग) अभि, नी (घ) अ, मानी

(11) "बेगुनाह" में उपसर्ग है-

(क) बेग (ख) बे (ग) बेगु (घ) इनमें से कोई नहीं

(12) "फल" का अनेकार्थी शब्द समूह है-

(क) फूल, फल (ख) फूल, फली (ग) नतीजा, खाने का फल (घ) इनमें से कोई नहीं

(13) "काल" का अनेकार्थी नहीं है-

(क) मृत्यु (ख) महाकाल (ग) समय (घ) चालाक

(14) "नग" का अनेकार्थी शब्द है-

(क) नंगा (ख) नगीना (ग) नहाना (घ) निगाह

(15) "बदबू" का सही उपसर्ग और शब्द खंड है-

(क) ब+ दब्बू (ख) ब+ दबू (ग) बद+ बू (घ) बद्+दबू

(16) किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है-

(क) लाहौर (ख) लाइलाज (ग) लापरवाह (घ) लापता

(17) "आ" उपसर्ग से बना शब्द है-

(क) आजकल (ख) आजमाना (ग) आजीवन (घ) आग

(18) किस शब्द में 'ई' प्रत्यय नहीं है-

(क) पंजाबी (ख) दवाई (ग) ऊंचाई (घ) लड़की

(19) "अंबर " का अनेकार्थी शब्द नहीं है-

(क) कपास (ख) बवंडर (ग) वस्त्र (घ) आकाश

(20) उपसर्ग शब्दों के ----- लगकर नये शब्दों का निर्माण करते हैं।

(क) पहले (ख) बाद में (ग) बीच में (घ) साथ में

